

उत्तरमाला

अभ्यास प्रश्न पत्र 2

कक्षा - X (2020-21)

विषय : गणित

1. $70-5 = 65$, $125-8 = 117$ $\text{HCF}(65, 117) = 13$ अथवा 3

2. $b^2-4ac = 21 > 0$ अथवा $\frac{-b}{a} = 3$

3. $k = -10$ अथवा $x^2+5x+6 = 0$

4. असत्य क्योंकि $\triangle DEF \sim \triangle QRP \Rightarrow \frac{DE}{QR} = \frac{FE}{RP}$

5. 1

6. $\pi p R^2 / 360^\circ$

7. $b = \pm 54$

8. संगत अथवा $\frac{a}{A} = \frac{b}{B} = \frac{c}{C}$ और $\frac{a}{A} \neq \frac{b}{B}$

9. रेखाएं समानांतर हैं $\Rightarrow \frac{a}{A} = \frac{b}{B} \neq \frac{c}{C}$

10. $a_{18} = 0$

11. 1

12. $OP = 2r$

13. $k = -1$

14. 1 : 1 : 2

15. वृत्त की परिधि = तार की लम्बाई = 44 सेमी

16. सत्य अथवा प्रायिकता = 1/6

17. (i) b) $x-2$ (ii) d) 60 m^3 (iii) d) 104 m^2 (iv) b) $\text{₹ } 2600$ (v) c) 60000 लीटर

18. (i) b) 160 सेमी (ii) c) 155.83 सेमी (iii) c) 155 सेमी (iv) a) 155.25 सेमी

(v) a) 155.625 सेमी

19. (i) b) $16,200 \text{ m}^2$ (ii) a) $16,200 \text{ m}^2$ (iii) d) $69,336 \text{ m}^2$ (iv) b) $180(2+3\sqrt{2}) \text{ m}$

(v) c) $1080(2+3\sqrt{2}) \text{ रु}$

20. (i) c) 0.50 (ii) b) 0.45 (iii) a) 0.05 (iv) d) 0.15 (v) (d) 0.45

21. सही रचना

22. 8 सेमी [संकेत: बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श-रेखा है।]

23. $\tan A = \sec^2 A - 1$; $\cos A = \frac{1}{\sec A}$; $\sin A = \frac{\sqrt{\sec^2 A - 1}}{\sec A}$; $\cot A = \frac{1}{\sqrt{\sec^2 A - 1}}$; $\operatorname{cosec} A = \frac{\sec A}{\sqrt{\sec^2 A - 1}}$

अथवा $\frac{43-24\sqrt{3}}{11}$

24. उचित प्रमाण अथवा $\text{LCM}(40, 42, 45) = 2520$ मी

25. पूर्णांक = 8, 9
26. विकर्ण AC के मध्य-बिंदु के निर्देशांक = विकर्ण BD के मध्य-बिंदु के निर्देशांक
27. HCF(90,240,336) = 6
28. माध्य = 2.56
29. $\triangle ACB \sim \triangle CDB \Rightarrow DB = \frac{ap}{b}$ और $\triangle ACB \sim \triangle ADC \Rightarrow AD = \frac{bp}{a}$
 $DB + AD = c \Rightarrow pc = ab$ अथवा सही कथन ; $x = 2$ (थैल्स प्रमेय के प्रयोग से)
30. दिया है : मूल समान हैं अतः $D = b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow p = \pm 8$
समीकरण के मूल = 4, 4, -4, -4
31. PQ = PR = 12 सेमी, चतुर्भुज का क्षेत्रफल = 60 वर्ग सेमी
32. उचित प्रमाण
33. उचित प्रमाण अथवा
- D को E से और O को C से मिलाइए। अब $\triangle DOA \cong \triangle COA$ तथा $\triangle EOB \cong \triangle COB$
अतः $\angle DOA = \angle COA$, $\angle EOB = \angle COB$
क्योंकि DE वृत्त का व्यास है, अतः DE एक रेखा है
अतः $\angle DOA + \angle COA + \angle EOB + \angle COB = 180^\circ$
 $\Rightarrow 2(\angle COA + \angle COB) = 180^\circ \Rightarrow \angle AOB = 90^\circ$
34. बेलन की ऊँचाई = 20 - 7 = 13 सेमी
ठोस का कुल आयतन = दो अर्धगोलों का आयतन + बेलन का आयतन
= 680.16 घन सेमी
- अथवा
- धातु द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा = ठोस का कुल आयतन
 $= \frac{1}{3} \pi r^2 h + \frac{1}{3} \pi r^2 H = \frac{1}{3} \pi r^2 (h+H)$
35. AB पर बिंदु C इस प्रकार लीजिये कि XYCA एक आयत है।
अतः AC = XY = 40 मी और AX = CY
 $\triangle BCY$ में $\tan 45^\circ = \frac{BC}{CY} \Rightarrow BC = CY$
- $\triangle BAX$ में $\tan 60^\circ = \frac{BC+40}{AX} \Rightarrow BC = \frac{40}{\sqrt{3}-1}$
- $AB = (6+2\sqrt{3})$ मी
- $\triangle BAX$ में $\sin 60^\circ = \frac{BC}{AB} \Rightarrow XB = 4(\sqrt{3}+1)$ मी
36. माना नियत व्यय = x
प्रतिदिन भोजन का मूल्य = y
स्वाति के लिए: $x+20y = 3000$ मानसी के लिए: $x+25y = 3500$
अतः नियत व्यय $x = 1000$ रु ; प्रतिदिन भोजन का मूल्य $y = 100$ रु

